



COM 210

B.Com. IV<sup>th</sup> SEMESTER EXAMINATION, 2023-24

COMMERCE

(Income Tax Law & Accounts -II)

(CBCS Mode)

AFFIX PRESCRIBED  
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the  
OMR Sheet)

Date (तिथि) : \_\_\_\_\_

5441

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) : \_\_\_\_\_

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

**Important Instructions :**

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

**महत्वपूर्ण निर्देश :**

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।



1. Tax deducted at source made by :
  - (A) Employer
  - (B) Government
  - (C) Income tax Department
  - (D) Income tax payer
2. What is the rate of surcharge applicable to individual having total income exceeding Rs. 1 crore but not more than Rs. 2 Crore.
  - (A) 15%
  - (B) 5%
  - (C) 2.5%
  - (D) Nil
3. A partnership firm sold a residential house under which section the firm can get exemption on long-term capital gains ?
  - (A) Sec. 54
  - (B) Sec. 54D
  - (C) Sec. 54EC
  - (D) Sec. 54F
4. An individual resident in India is liable to pay income tax if his income is more than :
  - (A) ₹ 1,00,000
  - (B) ₹ 1,50,000
  - (C) ₹ 2,00,000
  - (D) ₹ 5,00,000
1. उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है :
  - (A) नियोक्ता द्वारा
  - (B) सरकार द्वारा
  - (C) आयकर विभाग द्वारा
  - (D) आयकर दाता द्वारा
2. यदि एक व्यक्ति की आय एक करोड़ रुपये से अधिक है परन्तु दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो उसे किस दर से अधिभार देना होगा
  - (A) 15%
  - (B) 5%
  - (C) 2.5%
  - (D) शून्य
3. एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा। फर्म को किस धारा के अन्तर्गत दीर्घकालीन पूँजी पर लाभ पर कर से छूट मिल सकती है -
  - (A) धारा- 54
  - (B) धारा- 54D
  - (C) धारा- 54EC
  - (D) धारा- 54F
4. एक निवासी व्यक्ति आयकर देने के लिए दायी है यदि उसकी कुल आय \_\_\_\_\_ से अधिक है :
  - (A) ₹ 1,00,000
  - (B) ₹ 1,50,000
  - (C) ₹ 2,00,000
  - (D) ₹ 5,00,000

5. Which of the following is not a capital asset ?
- (A) Goodwill of a business  
(B) Jewellery  
(C) Stock-in-Trade  
(D) Agricultural land in Delhi
6. The rate of surcharge on tax payable when taxable income is ₹ 8,00,000 :
- (A) 5%  
(B) 2%  
(C) 3%  
(D) Zero
7. Capital gains is classified into how many types ?
- (A) Two  
(B) Three  
(C) Four  
(D) Five
8. Health and Education cess is calculated on :
- (A) Total income  
(B) Tax on total income  
(C) Taxable income  
(D) Agricultural income
5. निम्न में से कौन सी पूँजी सम्पत्ति नहीं है ?
- (A) व्यापार की ख्याति  
(B) आभूषण  
(C) व्यापारिक माल का रहतिया  
(D) दिल्ली में कृषि भूमि
6. कर योग्य आय ₹ 8,00,000 होने पर आयकर पर देय सरचार्ज की दर है :
- (A) 5%  
(B) 2%  
(C) 3%  
(D) शून्य
7. पूँजीगत लाभ को कितने प्रकार में बाँटा गया है ?
- (A) दो  
(B) तीन  
(C) चार  
(D) पाँच
8. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना की जाती है :
- (A) कुल आय पर  
(B) कुल आय के देयकर पर  
(C) कर-योग्य आय पर  
(D) कृषि आय पर

9. Which of the following would attract capital gains tax ?
- (A) Special Bearer Bond 1991  
(B) 6 $\frac{1}{2}$ % Gold Bond 1977  
(C) Stock in trade  
(D) None of these
10. Exemption limit for the Assessment 2023-24 in case of resident senior citizen assessee is :
- (A) ₹ 3,00,000  
(B) ₹ 2,40,000  
(C) ₹ 2,60,000  
(D) ₹ 2,50,000
11. The income from the sale of household furniture is :
- (A) Taxable income  
(B) Exempted income  
(C) Capital Gains  
(D) Revenue Gain
12. The rate of tax on lottery winnings is :
- (A) 20%  
(B) 25%  
(C) 30%  
(D) 35%
9. निम्न में से किस मद पर पूँजीगत लाभ कर-योग्य होगा ?
- (A) विशेष धारक बॉण्ड - 1991  
(B) 6 $\frac{1}{2}$ % स्वर्ण बॉण्ड - 1977  
(C) व्यापारिक रहतिया  
(D) इनमें से कोई नहीं
10. कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वरिष्ठ नागरिक निवासी करदाता की दशा में कर मुक्त सीमा है -
- (A) ₹ 3,00,000  
(B) ₹ 2,40,000  
(C) ₹ 2,60,000  
(D) ₹ 2,50,000
11. घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है -
- (A) कर-योग्य  
(B) कर-मुक्त  
(C) पूँजी लाभ  
(D) आयगत लाभ
12. लॉटरी से जीत पर आयकर की दर है :
- (A) 20%  
(B) 25%  
(C) 30%  
(D) 35%

13. Normally The income tax rate on a long term capital gains for an individual is :
- (A) 10%  
(B) 20%  
(C) 15%  
(D) 30%
14. The rate of Health and Education cess is :
- (A) 2%  
(B) 4%  
(C) 3%  
(D) 5%
15. Generally For capital gains being a long-term capital gains, an assessee should retain the asset for a period of :
- (A) 24 Months  
(B) 36 Months  
(C) More than 36 Months  
(D) 12 months
16. Deduction U/S 80G is allowed in connection with :
- (A) Charity  
(B) Computer Software  
(C) Royalty  
(D) Donation
13. सामान्यतः एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा :
- (A) 10%  
(B) 20%  
(C) 15%  
(D) 30%
14. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर क्या है ?
- (A) 2%  
(B) 4%  
(C) 3%  
(D) 5%
15. सामान्यतः पूँजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास सम्पत्ति रहनी चाहिए :
- (A) 24 माह  
(B) 36 माह  
(C) 36 माह से अधिक  
(D) 12 माह
16. धारा 80 जी की कटौती किसके सम्बन्ध में दी जाती है :
- (A) धर्मादा  
(B) कम्प्यूटर साफ्टवेयर  
(C) रायल्टी  
(D) दान

17. Cost inflation index number for the Financial Year 2022-23 is :

- (A) 1081
- (B) 1024
- (C) 272
- (D) 331

18. Deduction U/S 80C is not available to :

- (A) Individual
- (B) Hindu Undivided family
- (C) Company
- (D) All of these

19. In the case of Shares, long-term Capital gains will arise if the assessee retains the Shares with him for a period of :

- (A) Less than 12 month
- (B) 12 month
- (C) More than 12 months
- (D) None of these

20. Minor's income is clubbed to :

- (A) Father's income
- (B) Mother's income
- (C) Father's or Mother's income whichever is greater
- (D) Both Mother's and Father's income

17. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक है :

- (A) 1081
- (B) 1024
- (C) 272
- (D) 331

18. धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है :

- (A) व्यक्ति
- (B) हिन्दू अविभाजित परिवार
- (C) कम्पनी
- (D) ये सभी

19. अंशो की दशा दीर्घकालीन पूँजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखें :

- (A) 12 माह से कम
- (B) 12 माह
- (C) 12 माह से अधिक
- (D) इनमें से कोई नहीं

20. अवयस्क की आय शामिल की जाती है :

- (A) पिता की आय में
- (B) माता की आय में
- (C) पिता या माता की आय में जिसकी आय ज्यादा हो
- (D) पिता और माता दोनों की आय में

21. How much maximum amount can a person deposit to Public Provident fund in a financial year to earn interest on it :
- (A) ₹ 50,000  
 (B) ₹ 60,000  
 (C) ₹ 1,00,000  
 (D) ₹ 1,50,000
22. Sum received from the Sale of agricultural land shall be covered under the category of the following income :
- (A) Capital gains  
 (B) Agricultural income  
 (C) Business income  
 (D) None of these
23. Deduction admissible under section 80E :
- (A) In relation to Donation  
 (B) In relation to Medical Expenses  
 (C) In relation to interest on Loan for higher education paid  
 (D) None of these
21. एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधी में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है।
- (A) ₹ 50,000  
 (B) ₹ 60,000  
 (C) ₹ 1,00,000  
 (D) ₹ 1,50,000
22. कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा :
- (A) पूँजी लाभ  
 (B) कृषि आय  
 (C) व्यवसाय की आय  
 (D) इनमें से कोई नहीं
23. धारा 80E के अन्तर्गत कटौती मिलती है :
- (A) दान के सम्बन्ध में  
 (B) चिकित्सा व्यय के सम्बन्ध में  
 (C) उच्च शिक्षा के लिए गये ऋण पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में  
 (D) इनमें से कोई नहीं

24. Minor's income shall be included in the assessee's income if :
- (A) It exceeds ₹ 1,500  
(B) It is ₹ 1,200  
(C) It is nil  
(D) None of these
24. एक अवयस्क बच्चे की आय अभिभावक करदाता की आय में जोड़ी जाएगी यदि वह,
- (A) 1500 रुपये से अधिक हो  
(B) 1200 रुपये हो  
(C) शून्य हो  
(D) इनमें से कोई नहीं
25. Sections related to clubbing of income are :
- (A) Sections 60 to 69  
(B) Sections 60 to 64  
(C) Sections 60 to 67  
(D) Sections 68 to 69
25. आय के मिलान (क्लबिंग) से सम्बन्धित धाराएं हैं :
- (A) धारा 60 से 69  
(B) धारा 60 से 64  
(C) धारा 60 से 67  
(D) धारा 68 से 69
26. Capital gains arises on :
- (A) Business Capital  
(B) Transfer of Capital assets  
(C) Stock of Trade  
(D) All of these
26. पूँजी लाभ उदित होता है :
- (A) व्यापार की पूँजी पर  
(B) पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर  
(C) व्यापार के माल पर  
(D) इन सभी पर
27. On Which income deduction under section 80G is not allowed :
- (A) Salary  
(B) House Property  
(C) Long term capital Gain  
(D) None of these
27. किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जा सकती है :
- (A) वेतन  
(B) मकान सम्पत्ति  
(C) दीर्घकालीन पूँजी लाभ  
(D) कोई नहीं

28. Long-term capital loss can be set-off in the following :
- (A) 4 years  
(B) 6 years  
(C) 8 years  
(D) 10 years
29. Which of the following does not come under the category of transfer ?
- (A) Gift  
(B) Will  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of these
30. Under which section of the following an HUF is not entitled to a deduction from its Gross Total Income :
- (A) 80C  
(B) 80G  
(C) 80D  
(D) 80P
31. Capital gains on depreciation assets will always be :
- (A) STCG (Short Term Capital Gain)  
(B) Long Term Capital Gain  
(C) Tax-Free  
(D) None of these
28. दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले :
- (A) 4 वर्ष तक  
(B) 6 वर्ष तक  
(C) 8 वर्ष तक  
(D) 10 वर्ष तक
29. कौन-सा व्यवहार हस्तान्तरण की श्रेणी में नहीं आता ?
- (A) भेंट  
(B) वसीयत  
(C) दोनों (A) एवं (B)  
(D) इनमें से कोई नहीं
30. निम्न में से कौन सी धारा की छूट एक हिन्दू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में प्राप्त नहीं कर सकता :
- (A) 80C  
(B) 80G  
(C) 80D  
(D) 80P
31. हास होने वाली सम्पत्तियों का पूँजी लाभ होगा :
- (A) अल्पकालीन पूँजी लाभ  
(B) दीर्घकालीन पूँजी लाभ  
(C) कर-मुक्त  
(D) इनमें से कोई नहीं

32. Maximum deduction in respect of medical insurance premium paid for a senior citizen is :
- (A) ₹ 10,000  
(B) ₹ 15,000  
(C) ₹ 50,000  
(D) ₹ 25,000
33. Losses of speculation business can be set-off :
- (A) 4 Years  
(B) 8 Years  
(C) 3 Years  
(D) 6 Years
34. Which of the following is not a capital asset :
- (A) Agricultural land situated in a village  
(B) Good will of Business  
(C) Car for personal use  
(D) All of these
35. Under section of 80E deduction in respect of payment of interest on loan taken for higher education shall be allowed upto :
- (A) ₹ 20,000  
(B) ₹ 25,000  
(C) ₹ 30,000  
(D) No limit
32. दृश्ट नागरिक के स्वास्थ्य बीना प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी :
- (A) ₹ 10,000  
(B) ₹ 15,000  
(C) ₹ 50,000  
(D) ₹ 25,000
33. सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति हो सकती है :
- (A) 4 वर्ष  
(B) 8 वर्ष  
(C) 3 वर्ष  
(D) 6 वर्ष
34. निम्नलिखित में से क्या पूँजी सम्पत्ति नहीं है :
- (A) किसी गाँव मे स्थित कृषि भूमि  
(B) व्यापार की ख्याति  
(C) निजी उपयोग के लिए कार  
(D) इनमें से सभी
35. धारा 80E के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है :
- (A) ₹ 20,000  
(B) ₹ 25,000  
(C) ₹ 30,000  
(D) कोई सीमा नहीं

36. Liability to advance tax arises when tax payable is :
- (A) ₹ 5,000  
 (B) ₹ 10,000 or more  
 (C) ₹ 15,000 or more  
 (D) ₹ 20,000 or more
37. To find out long-term Capital Gain is calculated :
- (A) Depreciated cost  
 (B) Total Cost  
 (C) Indexed Cost  
 (D) Cost of Sales
38. For the Assessment Year 2023-24 the maximum permissible deduction U/S 80C is -
- (A) ₹ 79,000  
 (B) ₹ 1,12,000  
 (C) ₹ 1,50,000  
 (D) ₹ 80,000
39. Which of the following is not chargeable to tax under the head "Income from other Sources" ?
- (A) Dividend from a co-operative society  
 (B) Prize on crossword puzzles  
 (C) Profit on the sale of the goodwill of a business  
 (D) Interest from Bank
36. अग्रिम कर दायित्व उत्पन्न होता है जब देयकर की राशि है :
- (A) ₹ 5,000  
 (B) ₹ 10,000 या अधिक  
 (C) ₹ 15,000 या अधिक  
 (D) ₹ 20,000 या अधिक
37. दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है :
- (A) हासित लागत  
 (B) कुल-लागत  
 (C) निर्देशांक लागत  
 (D) विक्रय लागत
38. कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए धारा 80सी के अन्तर्गत अधिकतम कटौती की राशि है :
- (A) ₹ 79,000  
 (B) ₹ 1,12,000  
 (C) ₹ 1,50,000  
 (D) ₹ 80,000
39. निम्न में से कौन सी आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर-योग्य नहीं है ?
- (A) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश  
 (B) वर्ग पहेली का ईनाम  
 (C) व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ  
 (D) बैंक से ब्याज

40. First installment of Advance tax payable Falls due on :
- (A) July 15  
(B) June 20  
(C) June 15  
(D) March 15
40. अग्रिम कर की प्रथम किस्त की देय तिथि है :
- (A) जुलाई 15  
(B) जून 20  
(C) जून 15  
(D) मार्च 15
41. Donation to Prime Minister's National Relief Fund is deductible 100% out of the Gross Total Income of the assessee under which section of income tax act :
- (A) Section 80C  
(B) Section 80G  
(C) Section 80GG  
(D) Section 80D
41. आयकर की किस धारा के अन्तर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100 प्रतिशत सकल कुल आय में से घटता है :
- (A) धारा 80 सी  
(B) धारा 80 जी  
(C) धारा 80 जी जी  
(D) धारा 80 डी
42. Due date for II installment of advance tax is :
- (A) 15<sup>th</sup> September  
(B) 15<sup>th</sup> December  
(C) 15<sup>th</sup> March  
(D) 15<sup>th</sup> June
42. अग्रिम कर की दूसरी किस्त की देय तिथि है :
- (A) 15<sup>th</sup> सितम्बर  
(B) 15<sup>th</sup> दिसम्बर  
(C) 15<sup>th</sup> मार्च  
(D) 15<sup>th</sup> जून

43. An individual received family pension ₹ 60,000. How much standard deduction shall be allowed to him ?
- (A) ₹ 20,000  
(B) ₹ 25,000  
(C) ₹ 40,000  
(D) ₹ 15,000
44. Section 80C applies on :
- (A) Individual and Hindu undivided Family  
(B) Firm  
(C) Co-operative Societies  
(D) Company
45. Under which section interest shall be charged on deferment of advance tax :
- (A) 234A  
(B) 234B  
(C) 234C  
(D) 234D
46. Which of the following donations is eligible for 100% deduction ?
- (A) Prime Minister Drought Relief Fund  
(B) National Sports fund  
(C) Rajeev Gandhi Foundation  
(D) J. L. Nehru Memorial Fund
43. एक व्यक्ति को 60,000 ₹ पारिवारिक पेन्शन के प्राप्त हुए। मानक कटौती कितनी मिलेगी ?
- (A) 20,000 ₹  
(B) 25,000 ₹  
(C) 40,000 ₹  
(D) 15,000 ₹
44. धारा 80C की कटौती लागू होती है
- (A) व्यक्ति व संयुक्त हिन्दू परिवार पर  
(B) फर्म पर  
(C) सहकारी समितियों पर  
(D) कम्पनी पर
45. अग्रिम कर भुगतान स्थगित करने पर किस धारा के अन्तर्गत ब्याज लगेगा।
- (A) 234A  
(B) 234B  
(C) 234C  
(D) 234D
46. निम्नलिखित में दिए गये दान पर 100% कटौती स्वीकृत है :
- (A) प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष  
(B) राष्ट्रीय खेल कोष  
(C) राजीव गांधी फाउण्डेशन  
(D) जे० एल० नेहरू स्मृति कोष

47. Under which head the pension is taxable :
- (A) Salaries  
(B) Income from other sources  
(C) Capital Gains  
(D) None of these
48. What amount is accepted for deduction under section 80DD regarding disability :
- (A) ₹ 50,000  
(B) ₹ 75,000  
(C) Zero  
(D) Actual Expenses
49. Income from sub-letting of house property is :
- (A) Income from other sources  
(B) Property income  
(C) Exempted  
(D) Capital Gains
50. Salary of a M.P. will be taxable under the Head :
- (A) Salaries  
(B) Profit from Business and Profession  
(C) Capital Gains  
(D) Income from other Sources
47. पेंशन किस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होती है :
- (A) वेतन  
(B) अन्य साधनों से आय  
(C) पूँजी लाभ  
(D) इनमें से कोई नहीं
48. धारा 80DD के अन्तर्गत निःशक्तता के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है :
- (A) ₹ 50,000  
(B) ₹ 75,000  
(C) शून्य  
(D) वास्तविक व्यय
49. मकान सम्पत्ति को किरायेदार द्वारा पुनः किराये पर उठाने से आय है :
- (A) अन्य साधनों से आय  
(B) मकान सम्पत्ति से आय  
(C) कर-मुक्त  
(D) पूँजी लाभ
50. एक सांसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है :
- (A) वेतन  
(B) व्यापार अथवा पेशे से लाभ  
(C) पूँजी लाभ  
(D) अन्य स्रोतों से आय

\*\*\*\*\*